

वित्त मंत्रालय /Ministry of Finance
व्यय विभाग/Department of Expenditure
महालेखा नियंत्रक कार्यालय/Office of the Controller General of Accounts
महालेखा नियंत्रक भवन/Mahalekha Niyantrak Bhawan
ई ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए./E Block, GPO Complex, INA
नई दिल्ली/New Delhi-110023
(संहिता अनुभाग/Code Section)

No. 11011(12)/9/2024-Codes-CGA/15991/120-129

Dated: 12-03-2025

To

CCA, O/o Pr. CCA, CBIC,
Department of Revenue,
DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi.

Subject: Opening of new minor heads under Major Heads '0008-IGST' and '8449-Other Deposits' relating to accounting of Un-apportioned amount lying under IGST at the close of a Financial Year and its apportionment in subsequent years.

Sir/Madam,

I am to enclose herewith Correction Slip Numbers 1049 & 1050 dated 11-03-2025 to the LMMHA for Opening of new minor heads under Major Heads '0008-IGST' and '8449-Other Deposits' relating to accounting of Un-apportioned amount lying under IGST at the close of a Financial Year and its apportionment in subsequent years.

Yours faithfully,

Vijay Kumar 12/03/2025


(विजय कुमार)/(Vijay Kumar)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(संहिता)/Sr. AO (Codes)

vk.randev@nic.in 24665573

Copy along-with Correction Slip Numbers 1049 & 1050 dated 11-03-2025 forwarded to:

1. Smt. Alka Anand, Sr. Administrative Officer (Procedure-I), O/o C&AG, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
2. Sh. Rakesh Babbar, Dy. Director (Budget), DEA, MoF, room No. 237, North Block, New Delhi
3. Sr. AO, Data Analytics and Monthly Accounts, O/o CGA
4. Sr. AO, Appropriation Accounts, O/o CGA
5. Sr. AO, Finance Account, O/o CGA
6. Sr. AO, TA-1, O/o CGA
7. Sr. AO, TA-2, O/o CGA
8. Sr. AO, ITD for uploading the same on the website of CGA



Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
Mahalekha Niyantrak Bhawan
E Block, GPO Complex, INA
New Delhi-110023

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 1049 Dated: 11-03-2025

Page No. : 1(D) (Reprint of Fourth Edition)

Major Head : 0008 Integrated Goods and Services Tax (IGST)

Sub-Major Head : 02 IGST on domestic Supply of Goods and Services

Minor Head:

i. Insert the following new Minor Heads above existing Minor Head '950 -Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to CGST (10)' (incorporated vide CS 861 dated 30-06-2017):


745 Transfer of **Tax** component of un-apportioned IGST to the Deposits for un-apportioned IGST
746 Transfer of **Interest** component of un-apportioned IGST to the Deposits for un-apportioned IGST
747 Transfer of **Penalty** component of un-apportioned IGST to the Deposits for un-apportioned IGST
748 Transfer of **Fees** component of un-apportioned IGST to the Deposits for un-apportioned IGST
749 Transfer of **Others** component of un-apportioned IGST to the Deposits for un-apportioned IGST

945 Amount of **Tax** component met from the Deposits for Un-apportioned IGST
946 Amount of **Interest** component met from the Deposits for Un-apportioned IGST
947 Amount of **Penalty** component met from the Deposits for Un-apportioned IGST
948 Amount of **Fees** component met from the Deposits for Un-apportioned IGST
949 Amount of **Others** component met from the Deposits for Un-apportioned IGST

ii. Insert the following New Minor Heads below existing Minor Head '961-Advance apportionment of IGST to UTGST(10,12)' (inserted vide CS 898 dated 31-03-2018): -

962 Apportionment of IGST-Transfer out of **Fees** Component to CGST (10)
963 Apportionment of IGST-Transfer out of **Others** Component to CGST (10)
964 Apportionment of IGST-Transfer out of **Fees** Component to SGST (10,11)
965 Apportionment of IGST-Transfer out of **Others** Component to SGST (10,11)
966 Apportionment of IGST-Transfer out of **Fees** Component to UTGST (10,12)
967 Apportionment of IGST-Transfer out of **Others** Component to UTGST (10,12)

(Effective from 2024-25)
(Authority 11011(12)/9/2024-Codes-CGA/15991)


(Vijay Kumar)
Sr. AO (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
Mahalekha Niyantrak Bhawan
E Block, GPO Complex, INA
New Delhi-110023

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Page No. 389 (Reprint of Fourth Edition)

Correction Slip No. 1050 Dated: 11-03-2025

Major Head : 8449 Other Deposits

Insert the following new Minor Head and footnote below the existing Minor Head '121-National Permit Account' (inserted vide CS 742 dated 06-03-2013):

Minor Head : 122 Deposits for un-apportioned IGST (12)

Note (12) : - This Minor Head will be divided into following Sub-Head:

- 01- **Tax** component of the un-apportioned IGST
- 02- **Interest** component of the un-apportioned IGST
- 03- **Penalty** component of the un-apportioned IGST
- 04- **Fees** component of the un-apportioned IGST
- 05- **Others** component of the un-apportioned IGST

These Sub-heads will be credited from the un-apportioned components of IGST lying under CFI at the end of Financial Year and will be debited, in the subsequent financial year, when the un-apportioned component is transferred back to the CFI.

(Effective from 2024-25)
(Authority 11011(12)/9/2024-Codes-CGA/15991)

Vijay Kumar
12/03/2025
(Vijay Kumar)
Sr. AO (Codes)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
महालेखा नियंत्रक भवन
ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली-110023

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 1049 दिनांक: 11-03-2025

पृष्ठ सं. : 1(घ) (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष : 0008 एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)

उप-मुख्य शीर्ष : 02 वस्तु और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर आईजीएसटी

लघु शीर्ष:

(i) निम्नलिखित नए लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '950- आईजीएसटी का बंटवारा- सीजीएसटी को कर भाग से अंतरण (10)' (शुद्धि पर्ची संख्या 861 दिनांक 30-06-2007 द्वारा अंतः स्थापित) के नीचे अंतः स्थापित करें :

- 745 अविभाजित आईजीएसटी के कर भाग को अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि में अंतरण करना
- 746 अविभाजित आईजीएसटी के ब्याज भाग को अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि में अंतरण करना
- 747 अविभाजित आईजीएसटी के दण्ड भाग को अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि में अंतरण करना
- 748 अविभाजित आईजीएसटी के शुल्क भाग को अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि में अंतरण करना
- 749 अविभाजित आईजीएसटी के अन्य भाग को अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि में अंतरण करना

- 945 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा से पूरी की गयी कर भाग की राशि
- 946 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा से पूरी की गयी ब्याज भाग की राशि
- 947 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा से पूरी की गयी दण्ड भाग की राशि
- 948 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा से पूरी की गयी शुल्क भाग की राशि
- 949 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा से पूरी की गयी अन्य भाग की राशि

(ii) निम्नलिखित नए लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '961- आईजीएसटी का यूटीजीएसटी के लिए अग्रिम बंटवारा(10,12)' (शुद्धि पर्ची संख्या 898 दिनांक 31-03-2018 द्वारा अंतः स्थापित) के नीचे अंतः स्थापित करें :

- 962 आईजीएसटी का बंटवारा- सीजीएसटी को शुल्क भाग से अंतरण (10)
- 963 आईजीएसटी का बंटवारा- सीजीएसटी को अन्य भाग से अंतरण (10)
- 964 आईजीएसटी का बंटवारा- एसजीएसटी को शुल्क भाग से अंतरण (10,11)
- 965 आईजीएसटी का बंटवारा- एसजीएसटी को अन्य भाग से अंतरण (10,11)
- 966 आईजीएसटी का बंटवारा- यूटीजीएसटी को शुल्क भाग से अंतरण (10,12)
- 967 आईजीएसटी का बंटवारा- यूटीजीएसटी को अन्य भाग से अंतरण (10,12)

(2024-25 से प्रभावी)

(प्राधिकार 11011/12/09/2024-संहिता-सीजीए/15991)


(विजय कुमार)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(संहिता)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
महालेखा नियंत्रक भवन
ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लैक्स, आईएनए,
नई दिल्ली-110023

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 1050 दिनांक: 11-03-2025

पृष्ठ सं. : 389 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष : 8449 अन्य जमा

निम्नलिखित नए लघु शीर्ष और टिप्पणी को मौजूदा लघु शीर्ष '121 - राष्ट्रीय परमिट लेखा' (शुद्धि पर्ची संख्या 742 दिनांक 06-03-2013 द्वारा अंतः स्थापित) के नीचे अंतः स्थापित करें :

लघु शीर्ष : 122 अविभाजित आईजीएसटी के लिए जमा राशि (12)

टिप्पणी (12) :- इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:

- 01- अविभाजित आईजीएसटी का कर भाग
- 02- अविभाजित आईजीएसटी का ब्याज भाग
- 03- अविभाजित आईजीएसटी का दण्ड भाग
- 04- अविभाजित आईजीएसटी का शुल्क भाग
- 05- अविभाजित आईजीएसटी का अन्य भाग

इन उप-शीर्षों को वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की समेकित निधि के अंतर्गत पड़े आईजीएसटी के अविभाजित भागों से जमा (क्रेडिट) किया जाएगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष में, जब अविभाजित भाग को भारत की समेकित निधि में वापस स्थानांतरित किया जाएगा, तब इसे नामे (डेबिट) किया जाएगा।

(2024-25 से प्रभावी)

(प्राधिकार 11011/12/09/2024-संहिता-सीजीए/15991)



(विजय कुमार)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी(संहिता)